

यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, प्रयागराज

(इलाहाबाद विश्विद्यालय का स्वायत्तशासी एवम् संघटक कॉलेज)

ऑनलाइन परीक्षा और ऑनलाइन कॉपी जमा करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा - निर्देश

1. उत्तर पुस्तिका केवल पी डी एफ प्रारूप में स्वीकार की जाएगी। एक परीक्षा में केवल एक पी डी एफ फाइल जमा करने की अनुमति है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका(पी डी एफ प्रारूप) को कॉलेज परीक्षा पोर्टल में अपलोड करने का केवल एक मौका मिलेगा, इसलिए अपने डिवाइस से सही फाइल का चुनाव करने और अपलोड करते समय बहुत सावधान रहें।
2. छात्रों को सादे सफेद **A 4** आकार के कागज पर हाथ द्वारा उत्तर लिखना अनिवार्य है।
3. परीक्षा का समय सुबह **9:30** बजे से दोपहर **2** बजे तक है।
लेखन समय : **9:30 AM - 12:30 PM**
अपलोडिंग हेतु समय : **12:30 PM - 2:00 PM**
4. स्वयं का विवरण देने हेतु "प्रथम पृष्ठ" का प्रयोग करें जो कॉलेज वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको वेबसाइट से प्रथम पृष्ठ का प्रिंट आउट लेना है और काले रंग के पेन से सभी विवरणों को भरना है तथा प्रत्येक परीक्षा में इस प्रथम पेज को संलग्न करना है। कृपया अपनी सही जानकारी लिखते समय सावधान रहें।
5. कृपया उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक कागज के ऊपरी दाएं हाथ के कोने पर अपना नामांकन नंबर और पेज नंबर लिखें। पेज नंबर लिखने का प्रारूप इस प्रकार है -
उदा. अगर आपने **17** पेज लिखे हैं तो पेज की नंबरिंग इस तरह होगी **1/17, 2/17, 3/17, 4/17..... 17/17**.
6. स्नातक और परास्नातक की परीक्षा के लिए पेज सीमा इस प्रकार है :
एक पेज(पृष्ठ) का अर्थ कागज के एक तरफ लिखा हुआ है, दो तरफ लिखा हुआ नहीं।
स्नातक परीक्षा ---- **17** पेज, **A 4 Size**
परास्नातक परीक्षा ---- **20** पेज, **A 4 Size**
7. कृपया प्रश्नों का उत्तर उचित क्रम में दें।
8. निर्धारित समय में सभी प्रश्न का उत्तर देने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका का क्रम से प्रत्येक पेज की साफ फोटो खींचकर, किसी भी मुफ्त एप जैसे क्लियर स्कैनर(**Clear Scanner**) या एडोब स्कैन (**Adobe Scanner**) का प्रयोग करते हुए सभी पृष्ठों को एक साथ जोड़कर(**Merge**) उसे एक पी डी एफ फाइल में बदल दें।
9. पी डी एफ फाइल का अधिकतम आकार **20 MB** प्रति अपलोड होना चाहिए।
10. पी डी एफ फाइल को अपलोड करने के उपरांत उत्तर पुस्तिका को जमा करने के लिए सबमिट बटन को दबाएं।
11. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको उत्तर पुस्तिका(पी डी एफ स्क्रिण) जमा करने की पुष्टि का संदेश प्राप्त होगा।
यह उत्तर पुस्तिका को अपलोड करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा।

डॉ. ए. एस. मोसेस (प्राचार्य)



डॉ. ए. डेविड (नियंत्रक, परीक्षा)



डॉ. जस्टिन मसीह(उपनियंत्रक, परीक्षा)

